



इंडियन रेलवे कॅटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम-मिनी रत्न)
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Enterprise-Mini Ratna)

"CIN-L74899DL1999GOI101707" E-mail : info@irctc.com Website : www.irctc.com

No. 2024/IRCTC/CS/AGM-25

August 07, 2024

BSE Limited 1 st Floor, New Trade Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 542830	National Stock Exchange of India Limited “Exchange Plaza”, C-1, Block-G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Scrip Symbol: IRCTC
---	--

Sub: Newspaper Advertisement for notice of the 25th Annual General Meeting, e-voting information, book closure and dividend.

Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of Newspaper advertisement published in the “Business Standard” (in English version) and “Dainik Bhaskar”, “Business Standard”, and “Dainik Jagran” (in Hindi version) on August 04, 2024 regarding notice of the 25th Annual General Meeting, e-voting information, book closure and dividend.

This will also be hosted on the Company’s website at www.irctc.com.

This is for your record and information.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC)

(Suman Kalra)

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No: FCS 9199

Encl: As above.

 GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED (FORMERLY POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED) CIN : U65922PN2004PLC208751 Registered Office : 602, 6 th Floor, Zero One IT Park, Survey No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune - 411 036, Maharashtra Website : www.grihumhousing.com; E-mail : grihumsecretarial@grihumhousing.com Tel : Pune : +91 020 67808091				
Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June 2024 [Regulation 52(8), read with Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]				
(₹ in crores)				
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		30 June 2024 (Unaudited)	30 June 2023 (Unaudited)	31 March 2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	305.82	229.33	1,045.65
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	61.64	34.58	183.25
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	61.64	34.58	183.25
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	46.01	25.93	139.96
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	45.94	25.74	139.37
6	Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10/- each)	326.70	252.29	324.83
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	639.65	481.74	593.62
8	Securities Premium Account	1,309.65	501.72	1,309.02
9	Net worth	2,436.68	1,235.75	2,389.88
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	6,074.58	5,283.88	5,764.65
11	Outstanding Redeemable Preference shares	Not Applicable		
12	Debt Equity Ratio	2.49	4.28	2.41
13	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)*			
	a. Basic (in ₹)	1.41	1.03	5.03
	b. Diluted (in ₹)	0.94	0.62	3.15
14	Capital Redemption Reserve	Not Applicable		
15	Debt Redemption Reserve	Not Applicable		
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable		
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable		
* Not annualised for the quarters				
Notes: 1) The Unaudited financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time. 2) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange (BSE) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"). The full format of the quarterly financial results is available on the website of the BSE (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.grihumhousing.com). 3) For the other line items referred in the Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE and can be accessed on the website of BSE (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.grihumhousing.com). 4) Figures for the previous year/period have been regrouped and / or reclassified whenever considered necessary.				
By order of the Board For Grihum Housing Finance Limited (Formerly Poonawalla Housing Finance Limited) Manish Jaiswal Managing Director & Chief Executive Officer DIN: 07859441				
Place : Pune Date : 05 August 2024				

 TVS CREDIT EMPOWERING INDIA. We have served over 15 million happy customers across India.							
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024 (₹ in Crores)							
Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	1,606.06	1,346.26	5,789.57	1,606.34	1,346.48	5,790.54
2	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional Items)	187.10	156.70	761.94	187.36	156.92	762.88
3	Net Profit / (Loss) before tax (after Exceptional Items)	187.10	156.70	761.94	187.36	156.92	762.88
4	Net Profit / (Loss) after tax (after Exceptional Items)	140.43	117.26	571.83	140.63	117.42	572.56
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	137.66	114.28	551.14	137.86	114.44	551.86
6	Paid-up Equity share Capital (Face value of Rs.10/- each)	236.27	228.22	228.22	236.27	228.22	228.22
7	0.001% Compulsorily Convertible Preference Shares (Face value of Rs. 10/- each)	18.38	6.34	18.38	18.38	6.34	18.38
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,882.36	1,307.82	1,744.69	1,886.01	1,310.74	1,748.15
9	Securities Premium	2,196.14	1,530.01	1,874.19	2,196.14	1,530.01	1,874.19
10	Net Worth	4,333.15	3,072.39	3,865.48	4,336.80	3,075.31	3,868.94
11	Paid up debt capital / outstanding debt	23,404.29	20,628.68	22,588.43	23,404.29	20,628.68	22,588.43
12	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-	-
13	Debt Equity Ratio	5.40	6.71	5.84	5.40	6.71	5.84
14	Earnings Per Share (Face value of Rs.10/- each) (not annualised) (In Rs.)						
	(i) Basic	6.15	5.13	23.90	6.15	5.14	23.93
	(ii) Diluted	6.15	5.13	23.90	6.15	5.14	23.93
15	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-
16	Debt Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-
17	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19	Current Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	Long Term Debt to Working Capital	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21	Bad Debts to Account Receivable Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22	Current Liability Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
23	Total Debts to Total Assets	79.30%	82.03%	80.28%	79.29%	82.02%	80.27%
24	Debtors' Turnover	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	Inventory Turnover	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	Operating Margin (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	Net Profit Margin (%)	8.74%	8.69%	9.87%	8.75%	8.70%	9.88%
Notes: 1) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 06, 2024 and subjected to limited review by joint statutory auditors, pursuant to regulation 52 of the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and Paragraph 7 of Operational Circular SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2021/613 "Continuous disclosure requirements for listed Commercial Paper" dated 10th August 2021, as amended. 2) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock exchange website (www.nseindia.com) and on Company's website. 3) For the other line items referred in regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) and can be accessed on the Stock Exchange Website (www.nseindia.com). 4) The Company has prepared these standalone and consolidated financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. 5) Figures of previous periods have been regrouped, wherever necessary, to make them comparable with the current period.							
For TVS CREDIT SERVICES LIMITED Sd/- Sudarshan Venu Chairman							
Place : Bengaluru Date : August 06, 2024							
TVS CREDIT SERVICES LIMITED Regd office: "Chaitanya", No.12, Khader Nawaz Khan Road, Chennai 600 006. CIN : U65920TN2008PLC069759 Tel : 044-2833 2115 Website : www.tvscredit.com Email : Secretarial@tvscredit.com							

 Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (A Government of India Enterprises - Mini Ratna Category-I) CIN : L74899DL1999GOI101707	
Registered & Corporate office: 11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Tel.: 011-23311263-64, Fax: 011-23311259 Website: www.irctc.com e-mail: investors@irctc.com	
NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE AND DIVIDEND	
Notice is hereby given that: 1. The 25 th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited ("the Company") will be held on Friday, August 30, 2024 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening the 25 th AGM, in compliance with MCA Circular dated September 25, 2023, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and other notifications in force and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations"). 2. As permitted under the Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules 2014, the electronic copies of the Notice convening 25 th AGM together with the Annual Report for the financial year 2023-24 has been sent to all the members of the Company through electronic mode on August 06, 2024 , whose email ids are registered with the RTA/Depositories in accordance with MCA/SEBI circulars as mentioned above. The dispatch of the notice through e-mails has been completed on 06.08.2024. 3. Detailed instructions to the Members for registration of their email addresses, manner of participating in the 25 th AGM through VC/OAVM including manner of e-voting is set out in the Notice of the AGM. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this notice up to the date of AGM. The Annual Report of the Company is accessible to members at https://www.irctc.com/annual-report.html . Members seeking to inspect such documents may send an email to investors@irctc.com . 4. The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility. The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity shares of the Company as on Friday, August 23, 2024 . 5. The facility for voting shall also be made available during the 25 th AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to vote through e-voting system during the 25 th AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 25 th AGM but shall not be entitled to cast their vote again. 6. The members are informed that: a) The remote e-voting shall commence on Tuesday, August 27, 2024 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Thursday, August 29, 2024 at 5.00 P.M. (IST) ; b) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. (IST) on Thursday, August 29, 2024 ; c) Any person whose name appears in the register of Members/beneficial owners as on the cut-off date i.e. Friday, August 23, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting from Tuesday, August 27, 2024 at 9.00 A.M. (IST) to Thursday, August 29, 2024 at 5.00 P.M. and as well as e-voting system during the 25 th AGM; d) Any person who becomes member of the company after dispatch of the notice of meeting and holding shares as on the cut-off date Friday, August 23, 2024 may obtain the user id and password by sending a request at evoting@nsdl.com ; e) The remote e-voting module will be disabled after the date and time as aforementioned. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently; and f) Shareholders who have not updated their KYC details are requested to follow the below mentioned procedure for registration/update of their KYC details.	
In case of, Physical Holding	Members holding physical shares are requested to register/update their email addresses and bank account details by sending a duly signed request letter in Form ISR-1 along with supporting documents to the RTA of the Company i.e. Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension New Delhi - 110055 , or scanned copy on email at kycupdate@alankit.com through their registered mail ID and provide the following details/documents: 1. for registering email address: a) Folio No., b) Name of shareholder, c) Email ID, d) Mobile No. e) Copy of PAN card (self attested), f) Copy of Address proof (self-attested) g) Copy of share certificate (front and back) 2. for updating Bank Account details: Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, b) the Bank Account type, c) Bank Account Number, d) MICR Code Number, e) IFSC Code, and f) Copy of the cancelled cheque/Passbook bearing the name of the first shareholder 3. Members may please note the documents for KYC updation may be sent through electronic mode, provided that they are sent through E-mail id of the holder registered with RTA and all documents should be self attested by the Shareholder and in case of joint holders, by first joint holder.
In case, Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.
7. The Register of Members and Share Transfer Books for equity share of the Company will remain closed from Saturday, August 24, 2024 to Friday, August 30, 2024 (both days inclusive) , for taking record of the Members of the Company for the purpose of 25 th AGM for the financial year ended March 31, 2024. 8. The Board of Directors of the company has recommended a final dividend of ₹ 4.00/- per share. The final dividend if approved, by the members in the ensuing AGM will be paid within 30 days to the eligible members. Members may note that Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a company is taxable in hands of members. The company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend. In order to enable the company to determine the applicable TDS rates, members are requested to submit the relevant documents on or before Friday, August 23, 2024 to our RTA . May please refer to the Notice of AGM for details. 9. The Company has fixed Friday, August 23, 2024 as the 'Record Date' for determining entitlement of members for final dividend for the financial year ended March 31, 2024, if approved at the AGM. 10. Ms. Balika Sharma, Practicing Company Secretary has been appointed as "Scrutinizer" for remote e-voting process and e-voting at the meeting. 11. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members who need assistance before or during the AGM and e-voting user manual for Members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads Section'. You can also contact NSDL on toll free number 022-4886 7000 or Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, NSDL, at designated e-mail IDs: evoting@nsdl.com , who will address the grievances related to electronic voting.	
By order of the Board of Directors of IRCTC Ltd. Sd/- (Suman Kalra) Company Secretary and Compliance Officer	
Place : New Delhi Dated : August 06, 2024	

 TVS MOTOR COMPANY LIMITED Regd office: "Chaitanya", No. 12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai 600 006 Website: www.tvsmotor.com Telephone No. (044) 28332115 Email: contactus@tvsmotor.com CIN: L35921TN1992PLC022845							
STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024 (Rs. in Crores)							
S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended
		30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total income	8,411.88	7,275.47	31,924.90	10,447.63	9,142.05	39,250.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	782.91	610.36	2,780.66	738.53	626.53	2,702.92
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	782.91	610.36	2,780.66	738.53	626.53	2,702.92
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	577.32	467.67	2,083.00	484.82	441.47	1,778.54
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	561.80	440.50	2,063.26	455.12	393.67	1,725.07
6	Paid up Equity share capital (Face value of Re.1/- each)	47.51	47.51	47.51	47.51	47.51	47.51
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	7,683.53	-	-	6,736.00
8	Security Premium Account	- NOT APPLICABLE -					
9	Network	8,283.33	6,478.76	7,725.95	7,180.46	5,631.98	6,751.08
10	Outstanding Debt	864.46	2,275.32	1,027.61	22,736.70	21,086.89	22,930.82
11	Outstanding redeemable Preference Shares	- NOT APPLICABLE -					
12	Debt Equity Ratio (Times)	0.1	0.4	0.1	3.2	3.7	3.4
13	Earnings Per Share (Face value of Re. 1/- each) (not annualised)						
	(i) Basic (in Rs.)	12.15	9.84	43.84	9.70	9.14	35.50
	(ii) Diluted (in Rs.)	12.15	9.84	43.84	9.70	9.14	35.50
14	Capital Redemption Reserve	- NOT APPLICABLE -					
15	Debt Redemption Reserve	- NOT APPLICABLE -					
16	Debt Service Coverage Ratio (Excluding NBFC Subsidiary) (Times)	6.5	1.2	2.5	7.7	0.9	1.5
17	Interest Service Coverage Ratio (Excluding NBFC Subsidiary) (Times)	28.5	16.8	21.6	13.5	9.2	10.5
18	Current Ratio (Times)	0.6	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0
19	Long term debt to working capital (Times)	-	-	-	2.4	2.9	2.4
20	Bad debts to Accounts Receivable ratio (Times)	-	-	-	-	-	-
21	Current liability ratio (Times)	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6
22	Total debts to total assets ratio (Times)	0.1	0.2	0.1	0.6	0.6	0.6
23	Debtors Turnover ratio (Times)	25.4	28.1	27.9	28.2	26.3	25.3
24	Inventory Turnover ratio (Times)	16.9	15.5	18.0	12.2	10.7	11.7
25	Operating Margin (%)	11.5	10.6	11.1	9.8	9.3	9.9
26	Net Profit Margin (%)	6.9	6.5	6.6	4.7	4.9	4.5
Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.tvsmotor.com). 2. Figures for the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to conform to the current period's classification.							
For TVS Motor Company Limited Sd/- Prof. Sir Ralf Dieter Speth Chairman							
Place : Bengaluru Date : 06.08.2024							

जापानी मुद्रा व अमेरिकी मंदी का खतरा

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 6 अगस्त

वैश्विक वित्तीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। इसका कारण अमेरिका में मंदी की आशंका के साथ-साथ यह चिंता भी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दरें घटाने में बहुत ज्यादा देर कर दी है। इसके अलावा, बैंक ऑफ जापान (बीओजे) के दरों में वृद्धि करने से भी निवेशकों में घबराहट हो गई और येन कैरी ट्रेड सॉदे निपटाए गए। बढ़ता भूराजनीतिक तनाव भी वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए एक बड़ी परेशानी की कारण है। हालांकि कई ब्रोकर मध्यावधि से दीर्घावधि परिदृश्य के लिहाज से इक्विटी को लेकर आशान्वित बने हुए हैं लेकिन अल्पावधि अनिश्चितता को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। उनका मानना है कि भारत मजबूत बुनियादी आधार की वजह से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। विश्लेषकों के अनुसार हालांकि मूल्यांकन चिंताजनक है, लेकिन निवेशक दीर्घावधि नजरिये से अच्छी गुणवत्ता के शेयर खरीदने के लिए बाजार में गिरावट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आनंद राठी में मुख्य अर्थशास्त्री एवं कार्यकारी निदेशक सुखन हाजरा ने राज सिंह और कैताव सिंह के साथ मिलकर तैयार रिपोर्ट में कहा है, 'भारत के कैरी ट्रेड एक्सपोजर की पूरी तरह बिकवाली का लंबी अवधि में भारतीय शेयर बाजार पर ज्यादा प्रभाव होने की संभावना नहीं है। भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अल्पावधि गिरावट को शेयरों में निवेश बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।'



मौजूदा वैश्विक घटनाक्रम पर प्रमुख ब्रोकरों की राय इस प्रकार है:

जेफरीज

ब्याज दर कटौती अमेरिकी इक्विटी के लिए शेयर बाजार अमेरिका में मंदी और उससे जुड़ी वॉल स्ट्रीट की बिकवाली के आगे ज्यादा मजबूत हैं। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए कि भारत का शेयर बाजार घरेलू पूंजी पर केंद्रित है जबकि जापान में इससे विपरीत स्थिति है।

जापान जैसे देशों की तुलना में भारतीय शेयर बाजार अमेरिका में मंदी और उससे जुड़ी वॉल स्ट्रीट की बिकवाली के आगे ज्यादा मजबूत हैं। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए कि भारत का शेयर बाजार घरेलू पूंजी पर केंद्रित है जबकि जापान में इससे विपरीत स्थिति है।

एचएसबीसी

अमेरिका में वृद्धि से जुड़ी चिंताएं ताइवान जैसे निर्यात-केंद्रित बाजारों के लिए नकारात्मक और भारत, इंडोनेशिया तथा मुख्य चीन जैसे घरेलू-केंद्रित बाजारों के लिए सकारात्मक हैं। हम मुख्य चीन पर ओवरवेट बने हुए हैं लेकिन मानते हैं कि वहां इक्विटी के लिए अल्पावधि उल्लेख नहीं है। हम महंगे मूल्यांकन के बावजूद भारत को भी पसंद कर सकते हैं। हम ताइवान पर 'अंडरवेट' हैं।

यूबीएस

भारत और इंडोनेशिया पिछले तीन वर्षों में जापान से विदेशी इक्विटी निवेश के बड़े लाभार्थी रहे हैं और लगता है कि इनमें सबसे ज्यादा जोखिम उलटफेर का है। हाल में उभरे कई वैश्विक जोखिमों में हम चीन को अपेक्षाकृत रक्षात्मक मानते हैं, क्योंकि वहां के कई बड़े जोखिमों का असर पहले ही दिख

चुका है। सूचकांक भारांग के आधार पर एमएससीआई पोलैंड, थाईलैंड और मेक्सिको की प्रमुख वृद्धि अमेरिकी हलचल के प्रति अधिक संवेदनशील होती है जबकि चीन में सबसे कम संवेदनशीलता है। कोरिया, दक्षिण अफ्रीका के बाजार अतीत में अमेरिकी वास्तविक दर में गिरावट के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील रहे हैं।

नोमुरा

रोजगार के कमजोर आंकड़ों के बाद हमें इस साल तीन बार 2.5 आधार अंक की फेड दर कटौती की उम्मीद है। पहले 2.5 आधार अंक की दो दर कटौती का अनुमान लगाया गया था। बाजार में पहले ही इसका असर दिख चुका है। अमेरिकी 2 वर्षीय और 10 वर्षीय यील्ड में बड़ी गिरावट आई, डॉलर सूचकांक में कमजोरी आई, इक्विटी दबाव के अलावा वित्तीय स्थिति में सख्ती देखी गई। एशिया में इंडोनेशिया, कोरिया और फिलीपींस फेड और विदेशी मुद्रा संबंधित जोखिमों के लिहाज से ज्यादा नाजुक बने हुए हैं। अन्य एशियाई केंद्रीय बैंक – आरबीआई, बैंक ऑफ ताइवान फेड से कम प्रभावित और घरेलू कारकों से ज्यादा प्रभावित हैं।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

मौजूदा नकारात्मक खबरों का गैर-संस्थागत निवेशकों का भरोसा डगमगाने के लिए पर्याप्त हो भी सकता है और नहीं भी। बाजार सूचकांक ऐतिहासिक मल्टीपल और बॉन्ड यील्ड के नजरिये से अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन कई गैर-वित्तीय निफ्टी-50 घटक इस समय अपने स्वयं के रिकार्ड की तुलना में महंगे मल्टीपल पर कारोबार कर रहे हैं।

बांग्लादेश संकट: टेक्सटाइल शेयरों में तेजी पर गिरावट का करें इंतजार

दीपक कोरगांवकर और निकिता वशिष्ठ
मुंबई/नई दिल्ली, 6 अगस्त

बांग्लादेश में मौजूदा संकट की वजह से मंगलवार को एनएसई पर कपड़ा और परिधान से जुड़े शेयरों में 19 प्रतिशत तक की तेजी आई। हालांकि विश्लेषक इस तेजी के पीछे भागने के खिलाफ चेता रहे हैं, क्योंकि यह रुझान लाभ के लिए सिर्फ 'अस्थायी मौका' हो सकता है। विश्लेषक निवेशकों को इन शेयरों में मौजूदा तेजी थमने और दीर्घावधि के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में अच्छे बुनियादी आधार वाली कंपनियों शामिल करने को कह रहे हैं।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में रिटेल रिसर्च के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, 'बांग्लादेश में मौजूदा संकट की वजह से नए आईर हालत सुघरने तक भारत को मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ समय के लिए ही होगा क्योंकि बांग्लादेश लागत के मोर्चे पर भारत से बेहतर है। अगर शेयरों में लगातार तेजी आती है तो कारोबारियों को दांव लगाने से पहले सोचने की जरूरत होगी।'

शेयर बाजारों पर, काइटेक्स गारमेंट्स 19 प्रतिशत चढ़कर 251 रुपये, गोकलदास एक्सपोर्ट्स 18.7 प्रतिशत चढ़कर 1,095 रुपये पर पहुंच गया। इसके अलावा केपीआर मिल 16.7 प्रतिशत चढ़कर 965 रुपये, आरएसएमडब्ल्यू 15.4 प्रतिशत चढ़कर 267 रुपये, अरविंद 13 प्रतिशत चढ़कर 420 रुपये, इंडो कार्टेड इंडस्ट्रीज 8.3 प्रतिशत चढ़कर 408 रुपये और फेज श्री 8 प्रतिशत चढ़कर 561.25 रुपये पर पहुंच गया। ये शेयर निफ्टी-50 सूचकांक में आई 0.26 प्रतिशत गिरावट के बावजूद 17 प्रतिशत तक ऊपर रहे।

टेक्सटाइल क्षेत्र बांग्लादेश के लिए निर्यात आय का एक प्रमुख स्रोत है और उसका मासिक वस्त्र निर्यात 3.5 से 3.8 अरब डॉलर के करीब है। खबरों के अनुसार बांग्लादेश की यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बाजारों में मजबूत दू अंक की निर्यात बाजार भागीदारी है। अमेरिकी बाजार का 10 प्रतिशत हिस्सा उसके पास है। पड़ोसी देश में राजनीतिक संकट गहराने की वजह से विश्लेषकों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय खरीदार अपना ध्यान भारत जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर केंद्रित करेंगे। यदि बांग्लादेश के निर्यात का 10-11 प्रतिशत हिस्सा भारत की झोली में आता है तो देश को हर महीने करीब 30-40 करोड़ डॉलर का निर्यात बढ़ने का अनुमान है।

हालांकि निवेशकों को बांग्लादेश में मौजूदा संकट देखकर टेक्सटाइल शेयरों में जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल उद्योग बंद नहीं होगा, लेकिन अस्थायी तौर पर असर होगा। इससे कपड़ा क्षेत्र के शेयरों को बढ़ावा मिलेगा।



मंगलवार को एनएसई पर शेयर 19 प्रतिशत तक चढ़े। विश्लेषकों की राय में निवेशकों को बांग्लादेश में मौजूदा संकट के आधार पर टेक्सटाइल शेयरों में जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए

दीर्घावधि के लिए गिरावट पर खरीदें

विश्लेषकों का मानना है कि टेक्सटाइल शेयरों में दीर्घावधि निवेश चुनिंदा शेयरों के आकर्षक मूल्यांकन, सरकारी निवेश, घरेलू मांग में वृद्धि और फास्ट फैशन परिधानों की बढ़ती लोकप्रियता पर आधारित होना चाहिए।

लागत के मोर्चे की बात करें तो औसत कपास कीमतें जून 2024 की तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 3.3 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 0.3 प्रतिशत घटकर 162.1 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई जबकि औसत धागा कीमत सालाना आधार पर 0.7 बढ़ गई और इस अवधि में तिमाही आधार पर इसमें 0.5 प्रतिशत की कमी आई।

अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाजारों से मांग सुधरी है जबकि घरेलू बाजार सुस्त बने हुए हैं। वर्धमान टेक्सटाइल का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 75 प्रतिशत बढ़कर 238.5 करोड़ रुपये हो गया और शुद्ध मुनाफा मार्जिन सालाना आधार पर 5.66 प्रतिशत से बढ़कर 10.04 प्रतिशत पर पहुंच गया। नितिन स्पिनर्स का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 46 प्रतिशत बढ़कर 42.12 करोड़ रुपये रहा।

आगाज पर 17 फीसदी चढ़ा एकम्स ड्रग्स का शेयर

एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का शेयर मंगलवार को एकसर्चेंजों पर सूचीबद्धता के दौरान करीब 17 फीसदी चढ़ गया। दवा निर्माता कंपनी का शेयर 117.5 रुपये यानी 17.3 फीसदी की बढ़त के साथ 796.5 रुपये पर बंद हुआ जबकि इश्यू प्राइस 679 रुपये था। कंपनी के आईपीओ को करीब 50 गुना बोलियां मिली थीं। एकम्स ड्रग्स के आईपीओ में 680 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी हुए जबकि 1,177 करोड़ रुपये की द्वितीयक बिक्री हुई, इस तरह से आईपीओ का कुल आकार 1,857 करोड़ रुपये रहा। आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी मुख्य रूप से कर्ज भुगतान में करेगी। आखिरी बंद भाव पर एकम्स ड्रग्स का मूल्यांकन 12,534 करोड़ रुपये बैठता है। वित्त वर्ष 24 में कंपनी का परिचालन राजस्व 4, 178 करोड़ रुपये रहा जो सालाना आधार पर 14 फीसदी ज्यादा है। वित्त वर्ष 24 में कंपनी के पास देश के कान्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैनुफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन मार्केट की 30 फीसदी हिस्सेदारी थी।

सोने में 1,100 रुपये की गिरावट चांदी भी लुढ़की

आभूषण विक्रेताओं की कमजोर मांग के कारण स्थानीय सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 1,100 रुपये लुढ़ककर 71,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 72,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अखिल भारतीय सराफा संघ ने कहा कि चांदी की कीमतों में लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रही और मंगलवार को यह 2,200 रुपये लुढ़ककर 82,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 84,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। 2 अगस्त को सोने की कीमत 86,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर और बाजार कर रही थी, जिसके बाद से चार सत्रों में इसकी कीमत में 4,200 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है।

कॉइनडीसीएक्स ने कस्टमर प्रोटेक्शन फंड का ऐलान किया

क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइनडीसीएक्स ने ऐलान किया है कि फर्म ने अपने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड (सीआईपीएफ) के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ताकि सुरक्षा के उल्लंघन की स्थिति में निवेशकों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। एक्सचेंज ने यह कदम क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स में हुए साइबर हमले के बाद उठाया है जहां 23 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है।

कंपनी ने कहा कि वह शुरुआती कोष के तौर पर अपनी ब्रोकरेज आय का 2 फीसदी इसमें देगी जिससे समय के साथ फंड बढ़ता जाएगा। कॉइनडीसीएक्स ने यह फंड अपने नकदी रिजर्व से 50 करोड़ रुपये निकालकर बनाया है। एक्सचेंज के सह-संस्थापक सुमित गुप्ता ने कहा कि शुरुआत में हमने फंड में खुद के 50 करोड़ रुपये डाले हैं। हमने इसे अपनी बॉलेंस शीट और अपने रिजर्व से निकाला है। अब जो भी राजस्व अर्जित करेंगे, हम हर महीने अपनी ब्रोकरेज आय का दो फीसदी उसमें डालेंगे।

उन्होंने कहा कि फर्म हर साल ब्रोकरेज राशि का फिर से मूल्यांकन करेंगे और कोष के आकार का भी। उन्होंने कहा कि हम उसका यह आकलन करेंगे कि हमें ब्रोकरेज आय की दो फीसदी की दर में इजाजा करना है या नहीं।

जुलाई में नए डीमैट खाते छह महीने में सबसे ज्यादा खुले

डीमैट खातों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। जुलाई में 45.5 लाख नए डीमैट खाते जुड़े। इस तरह कुल खातों की संख्या करीब 16.7 करोड़ हो गई। यह जानकारी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के आंकड़ों से मिली। इस कैलेंडर वर्ष में यह चौथा महीना है जब नए खातों का जुड़ाव 40 लाख से ज्यादा रहा है। पिछले महीने शुद्ध जुड़ाव जनवरी के बाद सबसे ज्यादा रहा। तब रिकॉर्ड 46.8 लाख खाते जुड़े थे।



निवेशक बाजार में उतरे हैं। इस महीने एनएसई के एमडी और सीईओ आशिषकुमार चौहान ने कहा था कि एक्सचेंज के पास अब देश के सभी हिस्सों के निवेशकों के लिहाज से जुड़ाव में इक्विटी बाजारों में तेजी रही। पूंजी बाजार से जुड़े करों में बढ़ोतरी के बावजूद बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी पिछले महीने 3 फीसदी से ज्यादा चढ़े। इसके साथ ही निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांकों ने उमड़ा प्रदर्शन किया और उनमें क्रमशः 4.5 फीसदी व 5.8 फीसदी की तेजी आई। जुलाई में एफपीआई ने करीब 34,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जबकि देसी संस्थागत निवेशकों ने 20,000 करोड़ रुपये डाले।

डीमैट खातों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी का रुझान बताता है कि इक्विटी में सीधे निवेश को लेकर निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है। डिजिटल तरीके जुड़ने की सुविधा से भागीदारी आसान हो गई है। साथ ही आईपीओ की कतार और बाजारों में लगातार तेजी से काफी

खुशबू तिवारी

श्री वासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
CIN: L51109CT2007PLC020232
पंजीकृत कार्यालय: इकाई क्रमांक-6, नया कानपुर भवन
रिंग रोड नंबर 4 के पास, लेंडूआ आईआईटी, लेंडूआ, धरमसीवा, रायपुर 492099 (छ.ग.)
वेबसाइट: www.shreevasulogistics.com, ईमेल: cs@logisticpark.biz, दूरभाष: 7000681501

30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखा परीक्षा (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश (₹. लाख में)

क्र.	विवरण	(स्टैंडअलोन)		समाप्त वर्ष	
		30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय	3372.95	3118.88	2918.53	12306.60
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानी) (कर और अपवादात्मक मदों से पूर्व)	99.56	19.44	96.62	410.59
3	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानी) (कर पूर्व अपवादात्मक मदों के पश्चात)	99.56	19.44	96.62	410.59
4	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानी) (अपवादात्मक मदों के पश्चात)	74.57	19.86	72.65	312.06
5	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय (अवधि (करोपरांत) के लिए लाभ/(हानी) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) सम्मिलित)	74.91	22.58	72.92	328.43
6	इक्विटी शेयर पूंजी	1146.60	1146.60	1146.50	1146.60
7	अन्य इक्विटी (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि लेखा परीक्षित बॉलेंस शीट में दर्शाया गया है	-	-	-	2048.75
8	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ₹10 / - प्रत्येक)	-	-	-	-
।)	मूल (₹ में)	0.65	0.17	0.63	2.72
।।)	तनुकृत (₹ में)	0.65	0.17	0.63	2.71

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त परिणाम SEBI (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टैंड एकसर्चेंजों के पास दायर तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का निष्कर्ष है। वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टैंड एकसर्चेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.shreevasulogistics.com पर भी उपलब्ध है।
2. कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं, इसके तहत जारी प्रारंभिक नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा गया है।
3. उपरोक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 05 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी बैठकों में अनुमोदित किया गया।
कृते, श्री वासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
एसडी/- अलुत कम
प्रबंध निदेशक, डीआईएन: 01349747

इंडियन रेलवे क्रेटिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम-मिनी रत्न श्रेणी-I)
सीआईएन: L74899DL1999G0110710

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: 11वां तल, बी-148, स्टेटसमैन हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली .110001
टेली: 011-23311263-64, फॉक्स: 011-23311259 वेबसाइट: www.irctc.com ई-मेल: investors@irctc.com

25वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की सूचना, बहीखाता बंदी और लाभांश का नोटिस

- एण्डद्वारा सूचना दी जाती है कि:
- इंडियन रेलवे क्रेटिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 25वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), 25वीं एजीएम बुलाए जाने संबंधी नोटिस में यथा निर्धारित कार्य के संचालन हेतु, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिचय दिनांक 25 सितंबर, 2023, सेबी परिचय सं. संबंधी /एचओ/सीएफडी/सीओडी-2 /पी/सीआईआर/2023/167, दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और लागू अन्य अधिनियमों की अनुपालना में और अधिनियम के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी (लेखाओडिआर) विनियमों) के अनुपालन में वीडियो-कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों ("ऑनलाइन") के जरिए अगस्त, 2024 को अगस्त 12-30 बजे (भारतीय मानक समय) आयोजित की जायेगी।
 - ऊपर यथा वर्णित एजीएम/सेबी परिचयों के अनुरूप कंपनीज (सेवा) नियम 2014 के नियम 11 के तहत यथा अनुमोदित, 25वीं एजीएम बुलाए जाने संबंधी नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, साथ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के उन सभी सदस्यों को अगस्त 06, 2024 मेजी जा चुकी है।, जिसके ई-मेल आईडी आरटीए / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत है। ई-मेल के जरिए नोटिस भेजने का काम 06.08.2024 को पूरा कर लिया गया है।
 - सदस्यों के लिए अपने ई-मेल पता का पंजीकरण करने, ई-वोटिंग के तरीके सहित 25वीं एजीएम में वीसी / ऑनलाइन में भाग लेने के तरीके के संबंध में विस्तृत अनुदेश एजीएम के नोटिस में निर्धारित किये गये हैं। एजीएम में संबन्धित दस्तावेज सदस्यों द्वारा बनर किसी फीस के निर्धारण हेतु इलेक्ट्रॉनिकी रूप में इस सूचना के परिचालन की तिथि से अद्यतित करने के लिए आवश्यक है। कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन सदस्यों के लिए <https://www.irctc.com/annual-report.html> पर उपलब्ध है। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य investors@irctc.com पर एक ई-मेल भेज सकते हैं।
 - कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक एजेंसी के तौर पर एनएसईएल की सेवाएं ली हैं। सदस्यों का मताधिकार उनके द्वारा शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को कंपनी के प्रदत्त इक्विटी शेयरों में धारित इक्विटी शेयरों के समानुपात में होगा।
 - मतदान के लिए सुविधा 25वीं एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जायेगी और सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से अपने मताधिकार का पहले प्रयोग नहीं किया है, वे 25वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के योग्य होंगे। सदस्य, जो कि एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, वे भी 25वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे पुनः मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
 - सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) आरंभ होगी और बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2024 को अंतिम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी;
 - रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत, 29 अगस्त, 2024 को अपराह्न 4.00 बजे (भारतीय मानक समय) के उपरांत अनुमति नहीं दी जायेगी;
 - कोई व्यक्ति, केवल जिसका नाम सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को दर्ज है, वह मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) से बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2024 को अपराह्न 5.00 बजे तक रिमोट ई-वोटिंग और 25वीं एजीएम के दौरान 25वीं एजीएम प्रणाली में मतदान की सुविधा का लाभ लेने के हकदार होंगे;
 - कोई व्यक्ति जो कि केंद्रक की सूचना के प्रेषण के बाद केंद्रक का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को शेयर धारण कर लेता है, evoting@nsdl.com पर अनुरोध मेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
 - ऊपर वर्णित तिथि और समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग में मॉड्यूलर टैटो दिया जायेगा। सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान कर दिये जाने के उपरांत, उसे बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, और
 - शेयरधारक जिन्होंने अपने केवाईसी विवरण अद्यतन नहीं किये हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण के पंजीकरण/अद्यतन के लिए नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन करें।

मौलिक रूप में शेयर धारण करने के मामले में	मौलिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे फार्म आईएसएन-1 में एक विधिवत हस्ताक्षरित पत्र, साथ में समर्थित दस्तावेज आकर्म अधिनियम, 1961 में अधिदेश है कि कंपनी द्वारा सदस्यों को भुगतान या वितरण किया गया लाभ प्राप्त कर योग्य है। अतः कंपनी के लिए लाभार्थी का भुगतान करते समय धात पर कर (टीडीएस) की कटौती करना अपेक्षित होगा। लागू टीडीएस दरों के निर्धारण में कंपनी की सहायता के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को अथवा इससे पहले रिमोट आरटीए को संमत दस्तावेज प्रस्तुत कर दें। वितरण के लिए कृपया एजीएम के नोटिस का संघर्ष करें।
डीमैट शेयर धारण करने के मामले में	कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी के परामर्श के अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने डीमैट खाते में अपना ई-मेल पता और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।

- सदस्यों का रजिस्ट्रार और कंपनी के इक्विटी शेयर के लिए शेयर ट्रांसफर बुक्स, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 25वीं एजीएम के उद्देश्य के लिए कंपनी के सदस्यों का रिकॉर्ड लेने हेतु, शनिवार, 24 अगस्त, 2024 से शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।
- कंपनी के निदेशक मंडल ने रु. 4,00/- प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की रिफाजिलि की है। अंतिम लाभांश का भुगतान, यदि आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, पात्र सदस्यों को 30 दिनों के भीतर कर दिया जायेगा। सदस्य नोट कर लें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित आकर्म अधिनियम, 1961 में अधिदेश है कि कंपनी द्वारा सदस्यों को भुगतान या वितरण किया गया लाभ प्राप्त कर योग्य है। अतः कंपनी के लिए लाभार्थी का भुगतान करते समय धात पर कर (टीडीएस) की कटौती करना अपेक्षित होगा। लागू टीडीएस दरों के निर्धारण में कंपनी की सहायता के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को अथवा इससे पहले रिमोट आरटीए को संमत दस्तावेज प्रस्तुत कर दें। वितरण के लिए कृपया एजीएम के नोटिस का संघर्ष करें।
- सदस्य कृपया नोट कर लें कि केवाईसी अद्यतन हेतु दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे जा सकते हैं, बशर्ते कि वे आरटीए के साथ पंजीकृत धारक की ई-मेल आईडी के जरिए भेजे जाएं और सभी दस्तावेज शेयर धारण और संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, प्रथम संयुक्त धारक द्वारा स्वयं सत्यापित किये गये हों।
- सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी के परामर्श के अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने डीमैट खाते में अपना ई-मेल पता और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 06 अगस्त, 2024

हस्ता/ (सुपम कालूर) कंपनी सचिव और अनुपालना अधिकारी

रेलिंगेयर ने नियायकों को भेजा बर्मन का अनुरोध

दिल्ली उच्च न्यायालय में रेलिंगेयर की याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई होनी है

खुशबू तिवारी
मुंबई, 6 अगस्त

करीब एक साल की सुस्ती के बाद वित्तीय सेवा कंपनी रेलिंगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) ने डाबर के बर्मन परिवार द्वारा ओपन ऑफर के आवेदन को नियामकों के पास भेज दिया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, आरईएल ने ओपन ऑफर का आवेदन भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

(आईआरडीएआई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सौंप दिया है। यह कदम पिछले महीने प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों और सेबी द्वारा प्रबंधन के खिलाफ जून में जारी आदेश के बाद उठाया गया है। सेबी के एक अधिकारी ने कहा, 'आरईएल ने ओपन ऑफर के लिए अपना आवेदन सौंप दिया है। उन्होंने पंचाट के आदेश का पालन किया है।' सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय में आरईएल की याचिका

पर 20 अगस्त को सुनवाई होनी है। इसके बाद ओपन ऑफर लाया जा सकता है, क्योंकि यह मामला अभी विचारार्थी है। इस संबंध में कंपनी और वित्तीय नियामकों को भेजे ईमेल संदेशों का जवाब नहीं मिला है। इससे पहले, आरईएल ने कहा था कि वह अधिग्रहणकर्ता बर्मन परिवार के 'फिट एंड प्रॉपर' स्टेटस के साथ नियामकों के समक्ष खुली पेशकश के लिए आवेदन करेगी। बर्मन परिवार ने अतिरिक्त 26 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए खुली पेशकश की घोषणा की

थी। मौजूदा समय में बर्मन

बिहार कैबिनेट के फैसले • स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग पर फोकस

5462 बेड वाले नए पीएमसीएच के लिए 4315 पदों पर भर्ती होगी

पॉलिटिकल रिपोर्ट | पटना

पीएमसीएच (पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल) 5462 बेड वाला देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजों में शीर्ष गिन जाने लगेगा। यह एनएमसी दिल्ली के मानकों के अनुरूप विकसित हो रहा है। अभी यहां 1750 बेड पर ही मरीज भर्ती हो पाते हैं। कैबिनेट ने आने वाले समय में 5462 बेड वाले पीएमसीएच को चलाने के लिए 4315 नए पदों पर बहाली की मंजूरी दे दी है। पीएमसीएच को 3 चरणों में 1750 बेड से बढ़ाकर 5462 बेड में बदला जा रहा है। पहला चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है।

एक अन्य फैसले में थैलेसीमिया पीड़ित 12 वर्ष उम्र तक के बच्चों को मुफ्त बोनमैरो ट्रांसप्लांट कराने का

उद्यमों को 30% सामग्री/सेवा लोकल स्तर पर लेनी होगी

राज्य में लोकल लोगों को रोजगार और लोकल उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे राज्य के लोकल औद्योगिक इकाईयों, उद्यमों का विकास होगा। हर स्थिति में बिहार में काम करने वाली औद्योगिक इकाईयों व उद्यमों को कम से कम 30% सामग्री व सेवा लोकल स्तर पर लेना होगा। बिहार में कोई भी कंपनी अगर निर्माण के क्षेत्र में काम करेगी तो उसे ईट, बालू और गिट्टी छोड़कर 20% अन्य रॉ मैटेरियल बिहारी उद्यमों से ही खरीदना होगा।

फैसला किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार 15 लाख रुपए तक की सहायता देकर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी) वेल्लोर, तमिलनाडु में बच्चों का ट्रांसप्लांट कराएगी। इससे बच्चों को बार-बार खून चढ़ाने की परेशानी से निजात मिल जाएगी। उसके परिवार को आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी। इसके लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और सीएमसी वेल्लोर के बीच करार होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इस योजना के तहत रोगी, मानव ल्योकोसाइट एंटीजन (एचएलए) मैच डोनर एवं रोगी के अभिभावक को वेल्लोर (तमिलनाडू) भेजा जाएगा, जहां उनका एक मानक संचालन प्रक्रिया के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा।

गंगा पुल से कूद रहे युवक को कॉन्स्टेबल ने बचाया

कानपुर | पारिवारिक कलह के बाद कानपुर-उन्नाव पुल पर एक युवक सुमाइड करने पहुंच गया। परिवार के लोग भी उसे बचाने पीछे दौड़े लेकिन वह पुल की रेलिंग पर बैठ गया और परिवार के लोग हाथ-पैर जोड़ रहे थे। इस दौरान सूचना पर कैट पुलिस पहुंची और युवक को दबोक लिया। इसके बाद परिवार वालों के सुर्द कर दिया। कैट थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि थानाक्षेत्र के छोटी बोबी का हाता निवासी 24 वर्षीय कुनाल कश्यप रविवार रात को घर में झगड़ा करने के बाद गंगा घाट स्थित पुल पर कूद चुका गया। इस दौरान वह पुल की रेलिंग पर बैठकर छलांग लगाने जा रहा था। तभी पीआरवी 4755 के सिपाही शिव श्याम यादव ने तत्पश्चात दिखाते हुए कुनाल को पीछे से पकड़कर रेलिंग से उतार लिया।

मणिकर्णिका घाट जलमग्न, बारिश में भी खूली छत पर हो रहा अंतिम संस्कार



वाराणसी | 24 घंटे वाला शव दाह स्थल मणिकर्णिका घाट गंगा में जलमग्न हो चुका है। अंतिम संस्कार के लिए जगह में 5 गुना की कमी आ गई है। आम दिनों में मणिकर्णिका घाट पर एक साथ 50 से ज्यादा शवों को जलाने की क्षमता थी। जबकि, अब सिर्फ 8-10 शवों की ही कैपैसिटी रह गई है। दिन भर में 100 के बजाय महज 25-30 शव ही जल पा रहे हैं। घाट के सबसे ऊपर वाले खुले छत पर ही लाशें जलाई जा रही हैं। कई बार बारिश होती है तो फिर लकड़ियां चटौं-चटौं नहीं जल पाती। नीचे रखी लकड़ियां भी गीली हो रही हैं। उन्हें छतों और ऊपरी गलियों में शिफ्ट किया जा रहा है। उधर, डोम समाज का कहना है कि कार्यालय के नाम पर इस घाट के साथ कई पुराने भवनों को तोड़ दिया गया है। अब लाश तो छोड़िए, खुर डोम को ही बैठने की जगह नहीं।

बरही में स्टील प्लांट के फर्निस बेसमेंट में ब्लास्ट, 2 मजदूर की मौत, 5 घायल

भास्कर न्यूज | बरही/हजारीबाग
बरही औद्योगिक क्षेत्र के पवन पुत्र लौह स्टील प्लांट में मंगलवार सुबह 10.30 बजे फर्निस बेसमेंट में ब्लास्ट होने से सात मजदूर घायल हो गए। इलाज के दौरान बलिया निवासी जितेंद्र कुमार (46) की मौत हजारीबाग के आरोप्यम हॉस्पिटल में हो गई। वहीं, आजमगढ़ के करहने वाले शैलेश यादव (50) ने रॉची जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। घायल राजीव कुमार, राजेश कुमार, रामदेव यादव, नरेंद्र कुमार यादव को रॉची के टेकमकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूर गंभीर रूप से झूलस गए हैं। एक अन्य घायल शंकर यादव का इलाज बरही अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है।

पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की बेल अर्जी पर सुनवाई आज

मुजफ्फरपुर | चुनाव में टिकट देने के नाम पर यौन शोषण के आरोप में थिरे पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की ओर से जिला अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी पर गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-द्वितीय में सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री के खिलाफ बीते माह जमानतीय वारंट जारी किया गया था। इसके बाद पूर्व मंत्री की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है। गौरतलब है कि कुड़नी प्रखंड के एक गांव की रहने वाली युवती ने 24 नवंबर 2023 को पूर्व मंत्री पर विशेष पॉक्सो कोर्ट में परिवार दर्ज कराया था।

शबाब पर तुतला झरना.. चार वर्षों में इस मॉनसून में आया सबसे ज्यादा पानी



साशराम | तीन दिनों से लगातार रहे रही बारिश के बाद तुतला भवानी का झरना अपने शबाब पर है। इस सीजन ही नहीं, बल्कि पिछले चार वर्षों में इस बार झरना में सबसे ज्यादा पानी का बहाव है। मनोरम दृश्य देखने के लिए पर्यटकों का काफी संख्या में आना जारी है। आसपास के जिलों के अलावा यूपी-झारखंड से भी काफी संख्या में लोग इन दिनों तुतला भवानी आ रहे हैं। तेज बहाव को देखते हुए कुंड में नहाने पर प्रतिबंध है। हैरिंग ब्रिज और मंदिर के फाटक बंद कर दिए गए हैं।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT

e-procurement Notice INVITATION FOR BIDS (IFB)
The Executive Engineer, HP.PWD, Division Sarkaghat H.P. on behalf of Governor of HP, invites the percentage bids, in electronic tendering system, for construction of each of the following works from the eligible Class of contractors registered with HP.PWD for the works as detailed below.

Sr. No.1 Name of work : Periodic maintenance of Plassi Samila Trifalghat road KM 0/00 to 9/000 PMGSY road under Performance Incentive (SH: Providing & Laying using 25 mm thick bituminous concrete including five years periodic maintenance in KM 0/00 to 9/000) **Estimated cost : 1,49,45,000/- EMD :299000/- Cost of tender: 5000/- Time limit : Six Month Eligible class of contractor : Class – B**

Sr. No.2 Name of work : Periodic maintenance of Durgapur Baira road KM 0/00 to 7/870 PMGSY road under Performance Incentive (SH: Providing & Laying using 25 mm thick bituminous concrete including five years periodic maintenance in KM 0/00 to 4/000) **Estimated cost : 66,42,000/-EMD : 133000/-Cost of tender: 2000/-Time limit : Six Month Eligible class of contractor : Class – C**

1. Date of release of invitation for bids through e-procurement: **20.08.2024.**
Bids through e-procurement:
2. Starting and End Date/Time for receipt of bids through e-tendering **w.e.f. 20.08.2024 at 10:00 AM. to 27.08.2024 up to 06.00 PM.** Technical bid opened **28.08.2023 at 11:30 AM** and financial bid opened **31.08.2024 at 11:30 AM.**

3. The bidder are advised to note other details of tenders form the department website www.hpntender.gov.in
4. The tender shall be awarded to the lowest bidder without any negotiation if his tendered amount is within limit of (+) 5% to (-) 30% of the amount put to tender otherwise the tender will be cancelled and recalled.
5. The Executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/application or all tender without assigning any reason.

Executive Engineer, Sarkaghat Division, HP.PWD, Sarkaghat.
For behalf of Governor of Himachal Pradesh

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)
IN THE COURT OF
SH. SUNDEEP SINGH
Additional District & Sessions Judge, Jagadhri AJMER KAUR VS. SEWA RAM
CNR No: HRYN01-000119-2023
Next Date: 04-09-2024
Publication issued to:
1. SEWA RAM S/O KALARAM R/O VILLAGE GURMANDI DISTRICT SAHARANPUR
2. DILSHAD ALI S/O JINDA HUSAAN C/O VIKAS CHAND R/O A-1 NEW ANJ MANDI, CHILKANA ROAD, SAHARANPUR (UP)
In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 04-09-2024 at 10 am
For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Yamunanagar
Additional District & Sessions Judge, Jagadhri
Dated, this day of 05-08-2024

जेपी पटेल की विधायकी रद्द करने का मामला हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा से मांगा जवाब

विशेष संवाददाता | रांची
को कहा है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। याचिका में पटेल ने कहा है कि उन्हें बिना सुने स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। जबकि स्पीकर के पास कई अन्य सदस्यों की विधायकी रद्द करने के मामले लंबित हैं। पटेल भाजपा की टिकट पर मांडू विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की टिकट पर हजारीबाग से चुनाव लड़े और हार गए।

SBI BRANCH: MEHRAULI ROAD, GURGAON (HARYANA)
BRANCH CODE: 01565
PHONE: 0124-4780478, 4780401
FAX: 0124-2333230
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Madam/Sr.
With reference to notice for sale of gold ornaments, please find details below

Account No	Name of borrower	Liability
42546620646	Joginder Singh S/o Shobha Ram, Hisar, Haryana Pin-125039	Rs 165901+accrued interest and applied charges
42546653480	Joginder Singh S/o Shobha Ram, Hisar, Haryana Pin-125039	Rs 115067+accrued interest and applied charges

Yours faithfully, Branch Manager

Are you looking for a
PROACTIVE LEADER
HARD WORKING
SELF MANAGED
MARKETABLE
CONFIDENT
RELIABLE
COMMUNICATOR
DRIVEN
AMBITIOUS
SELF MOTIVATED
ORGANISED
ENTHUSIASTIC
CONFIDENT
Candidate?
We will help you find the perfect fit for your requirement
To book an Appointment Ad in **Dainik Bhaskar** Call our Executive: **9772019222**
BhaskarAd.com
FREE DESIGNING by Experts

PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माला, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइट: www.pspcl.in
फोन नं.: 96461-47777

निविदा पुरस्कार संख्या TSQ-1155/CE/TS/RDSS

उप मुख्य अभियंता/TL (डिजाइन), PSPCL, पटियाला, PSPCL विनिदेश संख्या TSQ-1155/RDSS के अनुसार, पूर्ण टनकी आधार पर RDSS के अंतर्गत समुल्लू HTLS कंडक्टर के साथ मौजूदा ACSR के संवर्धन से संबंधित 66 KV ट्रांसमिशन कार्यों के विकास के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। विस्तृत NIT और बोली दस्तावेज के लिए, कृपया 06.08.2024 (11:00 AM से) से <https://eproc.punjab.gov.in> देखें।
नोट: शुद्धिपर और परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो <https://eproc.punjab.gov.in> पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।
76155/12/3232/2023/36406 **C531/24**

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

वेज सं. 67-70, सेक्टर-2, पंचकूला-134151
(www.hssc.gov.in)
सार्वजनिक सूचना
अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए यह बताया जाता है कि प्रशासनिक कारणों से आयोग ने ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के लिए लिखित परीक्षा 10.08.2024 और 11.08.2024 के बजाय क्रमशः 17.08.2024 और 18.08.2024 को आयोजित करने का निर्णय लिया है, जैसा कि 31.07.2024 की घोषणा के माध्यम से पहले ही अधिसूचित किया गया था। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी उसी के अनुसार रखें।
हस्ता./-
उप सचिव
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
दिनांक : 05.08.2024

नीलामी सूचना

राजकीय प्राथमिक पाठशाला बीबीपुर खंड नूंह जिला नूंह में 7 कम्पे बिल्कुल नकारा व खडहर हो चुके है। निम्नकी नीलामी 12-08-2024 को सुबह 11 बजे शुरू प्राणाम में होनी है। जहां है जैसा है के आधार पर जर्जर भवन एवं कमरों को तोड़ने सोल्वेन्ड मटेरियल में सैने सहित मौजूदा बांधे के डिपोजिशन सामग्री की स्थल से सफाई के उद्देश्य हेतु इमारत की नीलामी की जाएगी।
1 खंड नूंह खडहर कम्पे 7 समूह लिमिटेड 1 मास राशी -137728 स्थान G.P.S बीबीपुर दिनांक:- 12-08-2024 शर्त:- 1. प्रत्येक बोलीदाता को जिला शिक्षा अधिकारी नूंह के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्कूल की % 10 रकम की राशी बोली के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए एक फुल पूर्ण जमा कवचांनी होगी जोकी सफल बोलीदाता को छोड़कर नीलामी की समति पर वापिस कर दी जाएगी।
2. सफल बोलीदाता के कुल बोली राशी का 10% अमानत के तौर पर बोली के दिन ही अयोधहास्तकारी के पक्ष में ड्राफ्ट के रूप में जमा कवचना होगा। जो कार्य समाप्ति पर वापिस कर दी जाएगी।
3. सफल बोलीदाता को बोली राशी का 100% 2 दिन के अन्दर-अन्दर उपरोक्त विद्यालय मुधिया के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंक के माध्यम से जमा कवचना होगा। असाफल रहने पर जमा कवचाई बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा 10% रुपये की राशी जफत कर की जाएगी।
4. इमारत अनुमतिपत्र जारी के 1 माह में इमारत तोड़ी जानी चाहिए तथा स्थल सोल्वेन्ड रहित होना चाहिए। विरक्त असाफल रहने पर शेष सोल्वेन्ड पर सरकार द्वारा कब्जा ले लिया जाएगा।
5. पाठशाला के मध्य किन्ही भी विवाद में न्यायाधिक क्षेत्राधिकार नूंह का होगा।
6. अगर परिशिष्ट परिस्थितियों के कारण डिपोजिशन के लिए इमारत का कब्जा समय में नहीं दिया जाता है तो ठेकेदार को कोई राहत नहीं दी जाएगी। केवल समय बढ़ाया जाएगा।
नोट:- बोलीदाता बोली व नीलामी होने से पहले स्थल (विद्यालय की अनुपस्थित ईमारत) को देख सकते है। नीलामी की प्रक्रिया उपरोक्त अनुसार सम्बन्धित विद्यालय प्रान्त में होगी।
Head Master
G.P.S Bippur
Distt.Nuh (Mewat)-15726

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
(भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय)
बासनी, जोधपुर (राजस्थान) पिनकोड: 342005
वेबसाइट: <https://www.aiaimsjodhpur.edu.in> फोन नं.: 0291-2740741

AIIMS-JDH/Admn/RECT / Deputation/05/2024

विज्ञापन
एम्स, जोधपुर प्रतिनिधुक्ति के आधार पर निम्नलिखित गैर-संकाय पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है:-

क्र.सं.	पद का नाम	ग्रुप	वेतनमान	कुल पद
1	पर्यवेक्षण चिकित्सा समाज सेवा अधिकारी	A	Level 10 as per 7th CPC	01

नोट:-
1. पदों की संख्या अस्थायी है, और संस्थान की आवश्यकतानुसार बदली जा सकती है।
2. प्रतिनिधुक्ति पर उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष है।
3. प्रतिनिधुक्ति की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष होगी।
4. जो अधिकारी योग्यता / पात्रता पूरी करते हैं, वे अपना उचित माध्यम से किया गया आवेदन उप-निदेशक (प्रशासन), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर 342005 (राजस्थान) को सीड पोस्ट / पंजीकृत A. D. द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। एम्स, जोधपुर में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन होगी।
विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन पर संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.aiaimsjodhpur.edu.in> पर उपलब्ध होगी।
अधिका
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड

(हरियाणा सरकार का संस्थान)
नरहेड़ा रोड, पटौदी (गुरुग्राम)
अल्पकालिक ई-निविदा सूचना
सभी माल दुलाई से संबंधित ठेकेदारों के सूचनार्थ है, कि हरियाणा बीज विकास निगम के पटौदी व अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों से हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर बीज दुलाई कार्य वर्ष 2024-25 (01.09.2024 से 31.08.2025) के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जिसका पूर्ण विवरण हरियाणा सरकार की वेबसाइट www.etenders.hry.nic.in पर दिनांक 02.08.2024 को ID No. : 2024_HBC_396669_1 के अंतर्गत दिया गया है। अतः इच्छुक पार्टियां निविदा भरने के लिए उपरलिखित वेबसाइट से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
प्रबन्धक

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, (हिसार)

मु.नं. 193 दिनांक 21.07.2024 धारा भा.दं.स. 127(6)
BNS थाना UE, हिसार
नाम :- जितेंद्र कुमार उर्फ पिंटू
उम्र :- 37 वर्ष
पता :- मॉडल टाउन हिसार
गुमशुदा की पहचान :- जितेंद्र उर्फ पिंटू S/o ईश्वर चंद R/O मॉडल टाउन, हिसार का रहने वाला है जो 19.07.2024 को घर से बिना बताए कहीं चला गया और वापस घर नहीं आया। रंग गोरा, कद 5 फुट 10 इंच, लाल शर्ट, काली पैंट व पैरों में चप्पल पहने हुए है। किसी सज्जन को इनके बारे में पता चले तो कृपया निम्न फोन नंबर पर सूचित करें।
कृपया यहां सचित्र करें
प्रबंधक थाना :- अर्बन एस्टेट हिसार, 88140-11310
पुलिस कण्ट्रोल हिसार : 01662-237150
अपराध अभिलेख अधिकारी,
कृते: पुलिस अधीक्षक (हिसार)
1084/11/2597/2025/28630/10/6

कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय सोनीपत

नाम- नामपता नामालूम
पिता/पति का नाम नामपता नामालूम
उम्र - करीब 40 वर्ष
कद - 5 फुट 9 इंच
हलिया:- लकुरा चेरना रंग काला, बाल मुडवाये हुये है आंख काली।
पहनवा: कमर मे हरे रंग का कच्छ।
दिनांक 31-07-2024 को जी.टी. रोड ग्लोबल पर एक्सीडेंट शुदा हालत में एक नामपता नामालूम व्यक्ति की नाश मिली है। जिसका पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल सोनीपत में करवाया गया।
आर मृतक के बारे में कोई सूचना प्राप्त हो या किसी थाना के क्षेत्र में कोई गुमशुदगी है या शिनाख्त होती है। तो निम्न नम्बरो पर सूचित करें।
प्रबन्धक थाना मो. नं. 7419410541
अनुसंधानकर्ता मो. नं.- 9813415849
कन्ट्रोल रुम सोनीपत: 0130-2222903,
अपराध अभिलेख अधिकारी,
कृते पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, सोनीपत
1084/11/2591/2025/28601/10/6

इंडियन रेलवे केंटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-निजी रत्न श्रेणी-I)
सीआईएन: LU4899DL1999GOH01707
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: 11वां तल, बी-148, स्टैटसमैन हाउस, बाराखंडा रोड, नई दिल्ली .110001
टेली: 011-23311263-64, फैक्स: 011-23311259 वेबसाइट: www.irctc.com ई-मेल: investors@irctc.com

25वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की सूचना, बहीखाता बंदी और लाभांश का नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:-
1. इंडियन रेलवे केंटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 25वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), 25वीं एजीएम बुलाए जाने संबंधी नोटिस में यथा निर्धारित कार्य के संचालन हेतु, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिचय दिनांक 25 सितंबर, 2023, सेबी परिचय नं. सेबी/एचओ/सीएफए/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167, दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और लागू अन्य अधिसूचनाओं की अनुपालना में और अधिनियम के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियमों] के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों ("ओवीएम") के जरिए शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को अपराह्न 12:30 बजे (भारतीय मानक समय) आयोजित की जाएगी।
2. ऊपर सथा वर्णित एजीएम/सेबी परिचयों के अनुसार कंपनीज (लेखा) नियम 2014 के नियम 11 के तहत तथा अनुसूची, 25वीं एजीएम बुलाए जाने संबंधी नोटिस के इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, साथ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के उन सभी सदस्यों को अपराह्न 06, 2024 में जारी की चुकी हैं, जिनके ई-मेल आईडी आरटीए / डिवायलटिज के साथ कनेक्ट है। ई-मेल के जरिए नोटिस भेजने का काम 06.08.2024 को पूरा कर लिया गया है।
3. सदस्यों के लिए अपने ई-मेल पता का पंजीकरण करने, ई-वोटिंग के तरीके सहित 25वीं एजीएम में वीसी/ओवीएम में भाग लेने के तरीके के संबंध में विस्तृत अनुसूची एजीएम के नोटिस में निर्धारित किया गया है। एजीएम के नोटिस में संदर्भित दस्तावेज सदस्यों द्वारा बरकरार किसी फीस के निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिकी रूप में इस सूचना के परिचयान की तिथि से एजीएम की तिथि तक उपलब्ध हैं। कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन सदस्यों के लिए <https://www.irctc.com/annual-report.html> पर उपलब्ध है। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य investors@irctc.com पर एक ई-मेल भेज सकते हैं।
4. कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक एजीएम के तौर पर एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। सदस्यों का मताधिकार उनके द्वारा शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को कंपनी के प्रदात इलेक्ट्रॉनिक शेयरों में धारित इलेक्ट्रॉनिक शेयरों के समतुल्यता में होगा।
5. मतदान के लिए सुविधा 25वीं एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी और सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से अपने मताधिकार का पहले प्रयोग नहीं किया है, वे 25वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के योग्य होंगे। सदस्य, जो कि एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, वे भी 25वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे पुनः मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
6. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
a) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) आरंभ होगी और बुधवार, 29 अगस्त, 2024 को अपराह्न 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी।
b) रिमोट ई-वोटिंग की बुधवार, 29 अगस्त, 2024 को अपराह्न 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) के उपरांत अनुमति नहीं दी जाएगी।
c) कोई व्यक्ति, केवल जिसका नाम सदस्यों/लाभार्थी स्वागियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को दर्ज है, वह मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) से बुधवार, 29 अगस्त, 2024 को अपराह्न 5.00 बजे तक रिमोट ई-वोटिंग और 25वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली में मतदान की सुविधा का लाभ लेने के हकदार होंगे।
d) कोई व्यक्ति जो कि बैंक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को शेयर धारण कर लेता है, evoting@nsdl.com पर अनुसूची मेलाकर सूत्र आईडी और सादरई प्राप्त कर सकता है।
e) ऊपर वर्णित तिथि और समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग मौजूदा हटा दिया जाएगा। सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान कर दिखे जाने के उपरांत, उसे बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और
f) शेयरधारक जिन्होंने अपने कोवाईसी विवरण अद्यतन नहीं किये हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने कोवाईसी विवरण के पंजीकरण/अद्यतन के लिए नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन करें।

नीतिक रूप में शेयर धारण करने के मामले में
नीतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे फार्म आईएसएन-1 में एक विधित्त हस्ताक्षरित पत्र, साथ में संशोधित दस्तावेज कंपनी के आरटीए अर्थात् अलंकिता असाइनमेंट लिमिटेड, अलंकिता हाऊस, 4ई/2 इंडियाएन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 को भेजकर, अथवा अपने पंजीकृत मेल आईडी से kycpdate@lananki.com पर ई-मेल के जरिए स्कैन की गई प्रति भेजकर अपने ई-मेल पते और बैंक खाता विवरण पंजीकरण/अद्यतन कर लें और निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज उपलब्ध कराएं:-
1. ई-मेल पता पंजीकरण करने के लिए:
कौ फोटा (नं., ख) शेयरधारक का नाम, ग) ई-मेल आईडी, घ) मोबाईल नं., ङ) पते की प्रति (स्वयं सत्यापित), च) पते के वस्तु की प्रति (स्वयं-सत्यापित) छ) शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति (हस्त-एवं बैंक)
2. बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के लिए:
बैंक का नाम और शाखा जिसमें लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं एच बैंक खाते की प्रकृति ए ग) बैंक खाता संख्या ए पी एम्आईसीआर कोड नंबर, ड) आईएफएससी कोड, और च) प्रथम शेयरधारक के नाम के उल्लेख वाले निरस्त बैंक/पासबुक की प्रति
3. सदस्य कृपया नोट कर लें कि कोवाईसी अद्यतन हेतु दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे जा सकते हैं, बशर्त कि वे आरटीए के साथ पंजीकृत धारक की ई-मेल आईडी के जरिए भेजे जाएं और सभी दस्तावेज शेयर धारक और संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, प्रथम संयुक्त धारक द्वारा स्वयं सत्यापित किये गये हों।

डीमैट शेयर धारण करने के मामले में
कृपया अपने डिवायलटिरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी के परामर्श के अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने डीमैट खाते में अपना ई-मेल पता और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।

7. सदस्यों का रजिस्ट्रेशन और कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक शेयर के लिए शेयर ट्रांसफर बुक्स, 31, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 25वीं एजीएम के उद्देश्य के लिए कंपनी के सदस्यों का रिफॉर्म होने हेतु, शनिवार, 24 अगस्त, 2024 से शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहे।
8. कंपनी के निदेशक मंडल ने रु. 4,000/- प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश का मुताबिक, यदि आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, पात्र सदस्यों को 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। सदस्य नोट कर लें कि वित्त अविनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 में अविदेशी है कि कंपनी द्वारा सदस्यों को मुताबिक या वितरण किया गया लाभांश कर योग्य है। अतः कंपनी के लिए लाभांश का मुताबिक करने समग्र सीट पर कर (डीवीएस) की कटौती करना अपेक्षित होगा। लागू डीवीएस दरों के निर्धारण में कंपनी की सहायता के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को अथवा इससे पहले हमारे आरटीए को संगत दस्तावेज प्रस्तुत कर दें। विवरण के लिए कृपया एजीएम के नोटिस का संदर्भ लें।
9. कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के लिए, यदि एजीएम में अनुमोदित हो जाता है, सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 रिफॉर्म तिथि के तौर पर निर्धारित की है।
10. सुशी बालिका शर्मा, प्रेक्टाइजिंग कंपनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया और डेटम में ई-वोटिंग के लिए "स्कूटाइजिंग" नियुक्त किया गया है।
11. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर "Downloads Section" के तहत उपलब्ध सदस्यों के लिए पूरक सूचे जाने वाले प्रश्न (एनएफएक्यू), जि

